

विद्याभवन , बालिका विद्यापीठ, लक्खीसराय  
रूपम कुमारी 🍁वर्ग-दशम् 🍁विषय-हिन्दी  
दिनांक- 29-7-20.

सुप्रभात बच्चों, आज हम -विशेषण उपवाक्य  
क्रियाविशेषण उपवाक्य तथा वाक्य -रूपांतरण  
की पुनरावृत्ति करेंगे ---

-विशेषण उपवाक्य – जो आश्रित उपवाक्य  
प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम  
की विशेषता बताता है ,उसे -विशेषण उपवाक्य  
कहते हैं ।

जैसे – यह वही आदमी है ,जिसने कल चोरी  
की थी ।

जो मेहनत करता है, उसे अवश्य सफलता मिलती है ।

उपर्युक्त वाक्यों में जिसने कल चोरी की थी और जो मेहनत करता है जो क्रमशः आदमी संज्ञा तथा उसे सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ।

-विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो या इसके किसी रूप जैसे -जिसने ,जिसे ,जिससे ,जिनको ,जिनके लिए इत्यादि से होता है ।  
जैसे -

कोई नहीं है जो कुश्ती में खली को जीत सके ।

जो विद्यार्थी समय गँवाते हैं , वे एक दिन बहुत पछताते हैं ।

प्रश्न-विशेषण उपवाक्य से संबंधित किन्हीं पाँच उदाहरणों को लिखें ।

क्रियाविशेषण उपवाक्य: जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रियाविशेषण की तरह किया जाता है । अर्थात्, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रियाविशेषण उपवाक्य कहते हैं ।

जैसे –  
जब तुम स्टेशन पर पहुँचे, तब मैं घर से चला । इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि इस में चलना मुख्य क्रिया है और उसकी विशेषता को आश्रित उपवाक्य वाला भाग - (जब तुम स्टेशन पहुँचे) बता रहा है । अतः

जब तुम स्टेशन पर पहुँचे क्रियाविशेषण  
उपवाक्य है ।

क्रियाविशेषण उपवाक्य के भी भेद होते हैं  
लेकिन इसे आप स्वयं पढ़ें ।

निम्नलिखित वाक्यों में आश्रित उपवाक्य  
अलग करें और उसके भेद बताएँ –

- महेश बोला कि मैं कल के केरल जा रहा  
हूँ ।
- आपका वह लड़का कहाँ है , जो छत से  
गिर पड़ा था ।
- वे सैनिक कहाँ हैं , जो कल छत से गिरा  
था ।
- मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि  
ज्ञानार्जन करूँ ।

- जो विद्यार्थी अपना समय गँवाते हैं वे एक दिन पछताते हैं ।
- वह ऐसे अटक-अटक कर बोल रहा है ,जैसे उसके मुँह में घाव हो ।

ध्यान रहे क्रियाविशेषण उपवाक्य की शुरुआत प्रायः जब , ज्योंही , जहाँ , जिधर ,जिस जगह ,जैसा, जिस तरह,जितना ,जितनी ,जैसे -जैसे , यदि , यद्यपि ,ताकि इत्यादि शब्दों से होती है ।

शेष कल....